

(iii) it will take necessary steps for promotion of marketing activities by way of grant of equipment, loans and advances to fishermen and their organisations, and

(iv) it may also undertake foreign collaborations for catching, processing and export of fish, manufacture of marine engines, trawlers and other fishing equipment

(c) The Corporation may undertake fishing operations in the entire coastal areas either independently or in collaboration with State Governments and other parties.

(d) The authorised capital of the Corporation is Rs. 5 crores and the present issued capital is Rs. 60 lakhs.

केन्द्रीय सहकारी भण्डार, दिल्ली

* 12. श्री प्रकाशबीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की शृपा करेंगे कि :

(क) कायला, गुड तथा लोहे के बारे में दिल्ली राज्य केन्द्रीय सहकारी भंडार द्वारा की गई अनियमितताओं से सम्बन्धित ऐसे कितने मामले हैं जिनके बारे में जांच पूरी हो गई है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या भण्डार अब भी कार्य कर रहा है तथा इसके पुराने कर्मचारियों को रखा लिया गया है; और

(ग) क्या इस भंडार के बारे में कोई और शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा

सहकार मंत्री (श्री बि० सुब्रह्मण्यम) :

(क) ऐसे तीन मामले हैं। वे इस प्रकार हैं :—

- (1) अनधिकृत स्थान में गुड और खांडसारी का भण्डार तथा बिक्री और सिविल रसद निदेशक, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली को पात्रिक विवरण न भोजना ;
- (2) लोहे तथा इस्पात की अर्बब बिक्री, दिल्ली राज्य लाइसेंस प्राधिकारी को मिथ्या विवरण भोजना तथा मासिक विवरण न भोजना; और
- (3) खास जयरामपुर कायला खान तथा भण्डार के कर्मचारियों के विरुद्ध "सब-स्टेड्ड" कायला खरीदने तथा बेचने के बारे में अपराधिक षडयन्त्र के आरोप ।

पहले दो मामलों में पुलिस जांच पूरी होने पर कानूनी कार्यवाही शुरू की गई थी और ये मामले न्यायाधीन हैं। तीसरे मामले में कानूनी कार्यवाही सम्भव नहीं थी ।

(ख) भण्डार अब भी कार्य कर रहा है ।

पुराने 70 कर्मचारियों में से, 8 अब भी काम कर रहे हैं ।

(ग) कोई नई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

खंड विकास अधिकारी के पद का समाप्त किया जाना

* 13. श्री किशन पटनायक :

श्री प्रकाशबीर शास्त्री :

श्री मधु सिमये :

श्री बामनी :

डा० राम मनोहर लोहिया :